

## \*प्रेस नोट\*

**\*पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन में आज दिनांक:- 03.08.2022 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-\***

- थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा छेड़खानी करने, गाली गलौच व मारपीट करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त तनवीर पुत्र शौकत अली निवासी मौ0 नौगजा थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त अर्जुन पुत्र लखपत सिंह निवासी ग्राम कोठपुरा थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा को मय 20 पच्चे देशी शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना बछरायूं पुलिस द्वारा अभियुक्त राजवीर पुत्र सान्तल निवासी ग्राम विशावली थाना बछरायूं जनपद अमरोहा को मय 30 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना रजबपुर पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ छेड़खानी कर रहे 02 अभियुक्त 1. राहुल पुत्र रमेश व 2. बबलू उर्फ शिव कुमार पुत्र महिपाल निवासीगण ग्राम देहरा जट्ट थाना रजबपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना गजरौला पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त तेजपाल पुत्र कुडे निवासी नाइपुरा खादर बुद्ध बाजार थाना गजरौला जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
- थाना गजरौला पुलिस द्वारा ईट से वार कर अपनी मां की हत्या करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त रोहित पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर गौसाई थाना गजरौला जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त रोहित की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल रक्तरंजित ईट बरामद की गयी व अभियुक्त को जेल भेजा गया।
- थाना गजरौला पुलिस द्वारा बकरे चोरी कर रहे 03 अभियुक्त 1. सादाब पुत्र अनवर 2. लियाकत पुत्र मुराद अली निवासीगण ग्राम मजीदपुरा थाना हापुड नगर जनपद हापुड व 3. नौशाद पुत्र अल्लाबख्श निवासी उलधन खरखौदा जनपद हापुड को मय चोरी किये हुये 02 जिन्दा बकरे व घटना में प्रयुक्त सैन्ट्रो कार रजि0न0 DL3C AJ 0284 सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना आदमपुर पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्त 1. भगवानदास पुत्र छोटेलाल 2. लालमन पुत्र छोटेलाल निवासीगण ग्राम भीमा सुल्तानपुर थाना आदमपुर जनपद अमरोहा व 3. नन्नू पुत्र बनवारी निवासी ग्राम व थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
- जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 15 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा 06 व्यक्ति, थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति, थाना नौगावां सादात पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना गजरौला पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति व थाना आदमपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया।